

To
Department of Corporate Services,
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street,
Mumbai – 400 001

To
Listing Department,
National Stock Exchange of India Limited
C-1, G-Block, Bandra - Kurla Complex
Bandra (E), Mumbai – 400 051

**Scrip Code: 543320, Scrip Symbol: ZOMATO
ISIN: INE758T01015**

Subject: Newspaper publication – Financial results for the quarter ended June 30, 2022

Dear Sir/ Ma'am,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the newspaper extract containing consolidated financial results of the Company for quarter ended June 30, 2022, published in the following editions:

- Financial Express (English newspaper - all editions) on August 3, 2022; and
- Jansatta (Hindi vernacular newspaper in Delhi) on August 3, 2022

You are requested to take the same on record.

**Thanking You,
For Zomato Limited
(Formerly known as Zomato Private Limited)**



**Sandhya Sethia
(Company Secretary & Compliance Officer)
Date: August 3, 2022
Place: Gurugram**

Encl: As above

ZOMATO LIMITED

(Formerly known as Zomato Private Limited)

Registered Address: Ground Floor 12A, 94 Meghdoot, Nehru Place, New Delhi - 110019, Delhi, India.

CIN: L93030DL2010PLC198141, **Telephone Number:** 011 - 40592373

● \$290-MILLION DEAL

Shapoorji Pallonji Group sells highway project stake to NIIF

FE BUREAU
Mumbai, August 2

BUSINESS CONGLOMERATE SHAPOORJI Pallonji Group (SP Group) has divested its entire stake in SP Jammu Udhampur Highway to National Investment and Infrastructure Fund (NIIF) for \$290 million (about ₹2,280 crore). The deal also helps the group to reduce its consolidated debt by about ₹1,850 crore.

SP Jammu Udhampur Highway is the developer of Jammu Udhampur Highway project, which is under concession from the National Highways Authority of India on a build-operate-transfer basis. "This is in line with SP Infrastructure's strategy of creating long-term value by developing strategic infrastructure projects. It also demonstrates the group's versatile capabilities across the

STRATEGIC PROJECT



PHOTO FOR REPRESENTATION

■ SP Jammu Udhampur Highway is the developer of Jammu Udhampur Highway project

■ The 64.5-km project enhances connectivity to the Vaishno Devi Shrine

■ The project had raised external commercial borrowings in dollar terms

entire project life cycle involving the development, financing, operations and unlocking of value," Sanjay Date, chief executive of transportation at SP Infrastructure, said.

Anchored by the Indian government, NIIF is a collaborative investment platform for global

and Indian investors and manages funds with investments in different asset classes and diversified sectors.

The 64.5-km-long four-lane Jammu Udhampur Highway is of strategic national interest and enhances connectivity to the Shri Mata Vaishno Devi

Shrine. Construction involved complex engineering in challenging hilly terrain under extreme weather conditions and was undertaken by Afcons Infrastructure, an SP Group company.

The project had raised external commercial borrowings in dollar terms during the construction phase and is refinancing them through listed non-convertible debentures.

"The Jammu Udhampur divestment is another milestone in SP Group's continuing journey of successfully developing, value engineering and monetising strategic projects. This transaction also results in an effective reduction of about ₹1,850 crore of consolidated group debt besides unlocking equity," Jai Mavani, group executive director (corporate finance and M&A) at SP Group, said.

Spectrum to aid data centres, super app: Adani Group

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, August 2

THE ADANI GROUP on Tuesday said the ₹212 crore worth of spectrum it has bought in a millimetre wave band will be used to create a private network to support its businesses and data centres.

Adani Data Networks (ADNL), a unit of Adani Enterprises, acquired the right to use 400MHz of spectrum in the 26GHz millimetre wave band for 20 years in the auction that concluded on Monday.

Adani group plans to use the airwaves for its data centres as well as the super app it is building to support businesses from electricity distribution to airports, and gas retailing to ports. "The newly acquired 5G spectrum is expected to help create a unified digital platform that will accelerate the pace and scale of the Adani group's digitisation of its core infrastructure, primary industry and B2C business portfolio," the group said in a statement.

Adani group bought less than 1% of total spectrum sold in



the auction. The group's broader strategy to digitally integrate its businesses include linking its data centres through a network of submarine and terrestrial cables, building the largest industrial operations cloud.

Gautam Adani, chairman of the Adani Group, said, "Given that our portfolio is a highly distributed asset intensive investment that are all being revolutionised by sensorisation and fast becoming IoT enabled, we believe the next data surge will be created more by machines than by people as all devices get interconnected. This data will need to be streamed, stored, processed, and analysed by other machines in real-time and this capability will change every single industry," he said.

Adani Green Energy net declines 2% to ₹214 cr

ADANI GREEN ENERGY (AGEL) on Tuesday posted a fall of over 2% in consolidated net profit at ₹214 crore in the April-June quarter of FY23, due to higher expenses. Consolidated net profit in the year-ago period was at

₹219 crore, according to a regulatory filing. The company's total income rose to ₹1,701 crore in the first quarter of the current fiscal. It was at ₹1,079 crore in the same period last year.

— PTI

Firms look to cash in on SUV popularity in festive season

VARUN SINGH
New Delhi, Aug 2

AUTOMAKERS ARE LOOKING to cash in on the popularity of sport utility vehicles (SUVs) by introducing a host of such models this festive season. Maruti Suzuki India, Hyundai Motor India, Mahindra & Mahindra, Toyota Kirloskar Motor and MG Motor India have either lined up fresh launches or will start the customer deliveries of new SUVs in a few weeks from now.

While Maruti launched the new Brezza compact SUV in June, it is now gearing up to bring the Grand Vitara mid-size SUV into the market. Hyundai will soon announce the prices of the Tucson premium SUV and commence its customer deliveries. The Korean carmaker had launched the new Venue compact SUV in June.

Mahindra will begin customer deliveries of the Scorpio-N premium SUV towards the end of September. Within 30 minutes on Saturday, the vehicle garnered 100,000 bookings. Toyota will launch the Urban Cruiser Hyryder mid-size SUV this festive season. The Hyryder

COMING SOON

■ Maruti will launch the **Grand Vitara**

■ Hyundai will announce **prices of the Tucson**

■ MG is preparing to introduce the **next-generation Hector**

■ Mahindra will begin deliveries of the **new Scorpio-N** by Sept-end

and Maruti's Grand Vitara have been developed as part of the global alliance between Toyota Motor and Suzuki Motor. Sales will commence in September.

MG will also launch the next-generation Hector premium SUV soon. From 26% in FY20, the SUV segment's share in the overall passenger vehicle (PV) volumes increased to 40% in FY22, with entry-level SUVs making up 22%, mid-size 17% and premium 1%.

"The third quarter of every fiscal has seen higher sales of PVs, approximately 26-28% of

total sales, as it coincides with the Indian festive period. Consequently, it has been observed that manufacturers try to align facelifts and model launches a few months before this period to take advantage of higher spending during the festive season," said Pushan Sharma, director, Crisil Research.

Between FY10 and FY22, 37 models have been launched in the small car segment and 36 discontinued, while 87 utility vehicles have been introduced and 65 axed.

Icra corporate rating vice president and sector head Rohan Kanwar Gupta said the growing popularity of SUVs in India is in line with the global trend. "The festive season is normally associated with an improvement in retail offtake across automotive segments. The OEMs thus tend to sometimes plan model launches during the festive season, with a view of benefitting from the buoyant sentiments," he said.

Praxis Global Alliance partner Suman Jagdev said OEMs run discounts, provide free accessories and furnish loan offers during the festive season.

Thermax profit rises 40% in Q1

FE BUREAU
Pune, August 2

ENERGY AND ENVIRONMENT solutions company Thermax Group on Tuesday reported a 40% year-on-year (y-o-y) jump in net profit to ₹58.9 crore for the quarter ended June.

Revenues grew by 57% to ₹1,654 crore driven by strong order inflow from diverse sectors, including refineries, steel, power, and chemicals. Thermax witnessed an upward trend in demand from sugar, distilleries, paper and pulp industries for green offerings.

Thermax's order book was up 36% to ₹2,310 crore. As of June 30, the order balance for the quarter was ₹9,554 crore, an y-o-y increase of 56%.

On a standalone basis, Thermax posted a 23% fall in net profit and a 33% growth in revenue to ₹947 crore during the quarter.

The company said profitability was impacted due to the increased commodity and freight costs in the chemical segment.

Voltas net profit falls 10.5% to ₹109.6 cr

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, August 2

AIR CONDITIONING AND engineering services provider Voltas on Tuesday reported a decline of 10.47% in its consolidated net profit at ₹109.62 crore in the first quarter ended June 30, 2022.

The Tata group firm had posted a consolidated net profit of ₹122.44 crore in the April-June quarter last fiscal, it said in a regulatory filing.

Revenue from operations increased 55.05% to ₹2,768 crore during the period under

review as against ₹1,785.20 crore in the corresponding period of the previous fiscal.

Its total expenses were at ₹2,603.48 crore, up 56.69% in first quarter of FY23, as against ₹1,661.53 crore a year ago.

Voltas' revenue from "unitary cooling products for comfort and commercial use" was up two-fold to ₹2,162.20 crore as against ₹963.11 crore.

"On the back of the volume growth, gross segment revenue increased by 125%," said Voltas, adding it "continues to be the market leader" in the segment.

zomato

Zomato Limited (formerly known as Zomato Private Limited)

CIN : L93030DL2010PLC198141

Registered office- Ground Floor, 12A, 94 Meghdoot, Nehru Place, New Delhi- 110019, Delhi, India
Telephone- 011-40592373, Email- companysecretary@zomato.com, Website- www.zomato.com

Extract of consolidated financial results for the quarter ended June 30, 2022

S. No.	Particulars	Quarter ended				Year ended
		June 30, 2022	March 31, 2022	June 30, 2021	March 31, 2022	
		Unaudited	Unaudited ¹	Unaudited	Audited	
1	Total income	15,820	13,500	9,166	46,873	
2	Net loss for the period (before tax and exceptional items)	(1,860)	(3,515)	(3,431)	(15,179)	
3	Net loss for the period before tax (after exceptional items)	(1,860)	(3,594)	(3,590)	(12,205)	
4	Net loss for the period after tax (after exceptional items)	(1,860)	(3,597)	(3,607)	(12,225)	
5	Total comprehensive loss for the period	(2,625)	(3,474)	(3,632)	(12,203)	
6	Paid-up share capital	7,652	7,643	6,381	7,643	
7	Other equity ² as on March 31, 2022	-	-	-	157,412	
8	Loss per share (₹) (face value of ₹1 each)	(0.24)	(0.47)	(0.56)	(1.67)	
	(a) Basic	(0.24)	(0.47)	(0.56)	(1.67)	
	(b) Diluted	(0.24)	(0.47)	(0.56)	(1.67)	

¹The figures of the last quarter of the previous year are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and published year to date figures upto the third quarter of the relevant financial year.

²The Company does not have any revaluation reserve.

³EPS is not annualised for the quarter ended June 30, 2022, quarter ended March 31, 2022 and quarter ended June 30, 2021.

Notes:

(a) Exceptional items include:

Particulars	Quarter ended				Year ended
	June 30, 2022	March 31, 2022	June 30, 2021	March 31, 2022	
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	
Gain on sale/disposal of investment including foreign currency translation reserve on foreign subsidiaries sold / disposed off during the period	-	15	-	3,227	
Loss on account of movements in foreign exchange rate in one of the Company's subsidiary operating in a hyperinflationary economy	-	(94)	(159)	(253)	
Total	-	(79)	(159)	2,974	

(b) Standalone information:

Particulars	Quarter ended				Year ended
	June 30, 2022	March 31, 2022	June 30, 2021	March 31, 2022	
	Unaudited	Unaudited ¹	Unaudited	Audited	
Total income	13,043	11,618	8,283	41,085	
Net loss for the period (before tax and exceptional items)	(1,381)	(2,929)	(2,904)	(12,688)	
Net loss for the period before tax (after exceptional items)	(1,381)	(2,935)	(2,908)	(10,978)	
Net loss for the period after tax (after exceptional items)	(1,381)	(2,937)	(2,908)	(10,980)	

¹The figures of the last quarter of the previous year are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and published year to date figures upto the third quarter of the relevant financial year.

(c) The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results are available on the websites of National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com), BSE Limited (www.bseindia.com) and the Company (www.zomato.com).

For and on behalf of the board of directors of Zomato Limited (formerly known as Zomato Private Limited)

Date: August 01, 2022
Place: GurugramSd/-
Deepinder Goyal
Managing Director and Chief Executive Officer
(DIN-02613583)

Schneider Electric Infrastructure Limited

Registered Office: Milestone 87, Vadodara-Halol Highway, Village Kotambi, Post office Jarod, Vadodara - 391510, Gujarat, India

Corporate Office: 9th Floor, DLF Building No. 10 Tower C, DLF Cyber City, Phase II, Gurugram -122002, Haryana, India, Tel : +91 124 3940400; Fax : +91 124 4222036; website: <https://infra.schneider-electric.co.in>; CIN : L31900GJ2011PLC064420

Statement of Financial Results for the Quarter ended June 30, 2022

(Rupees Millions except earning per share data)

Particulars	Quarter Ended		Year to date	
	June 30, 2022 (Unaudited)	March 31, 2022 (Audited) (refer note 8)	June 30, 2021 (Unaudited)	March 31, 2022 (Audited)
Total income from operations	3,714.84	3,400.22	2,881.83	15,303.39
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax and Exceptional items)	138.93	26.70	(160.82)	302.22
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items) (refer note 4)	265.25	0.70	(160.82)	276.22
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	265.25	0.70	(160.82)	276.22
Total Comprehensive Income for the period	133.47	56.64	(152.94)	325.78
Paid-up equity share capital (face value of Rs. 2/- each.)	478.21	478.21	478.21	478.21
Other equity	-	-	-	(116.98)
Earnings per equity share (EPS) (not annualised)				
a) Basic	1.11	0.00	(0.67)	1.16
b) Diluted	1.11	0.00	(0.67)	1.16

Notes :

- The above Financial Results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on August 02, 2022.
- These financial results of the Company have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (IND AS) as notified by Ministry of Corporate Affairs pursuant to Section 133 of the Companies Act 2013 read with rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standard) rules, 2015 and relevant amendments made thereunder.
- The Chief Operating Decision Maker "CODM" reviews the operations of the Company as a whole, i.e. single primary business segment viz. product and systems for electricity distribution, hence, there are no reportable segments as per Ind AS 108 "Operating Segments".
- Exceptional items represent gain on modification of debt and expense towards organizational restructuring for improving efficiency in the current and previous quarter, respectively.
- During the quarter, the Company has earned profit MINR 133.47 with total accumulated losses aggregating to MINR 3,106.46. The management has evaluated availability of sufficient funding to meet Company's obligations. For such evaluation, the management has considered various factors which include estimated future cash flows, availability of working capital facilities sanctioned by the banks and borrowings sourced from group companies. Basis such evaluation and mitigating actions the management is confident that the Company will be able to realize its assets and discharge its liabilities in the normal course of business. Therefore, these financial results have been prepared based on going concern assumption.
- The Company has made an assessment of the impact of the continuing Covid-19 pandemic on its current and future operations, liquidity position and cash flow giving due consideration to the internal and external factors. The Company is continuously monitoring the situation and does not foresee any significant impact on its operations and the financial position as at June 30, 2022.
- The Indian Parliament has approved the Code of Social Security, 2020, which would impact the contributions by the Company towards Provident Fund and Gratuity. The effective date from which the changes are applicable is yet to be notified and the final rules are yet to be framed. The Company will carry out an evaluation of the impact and record the same in financial results in the period in which the Code becomes effective and the related rules are published.
- The figures of the quarter ended March 31, 2022 are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year up to March 31, 2022 and the unaudited published year-to-date figures up to December 31, 2021, being the date of the end of the third quarter of the financial year which were subjected to limited review.
- Previous period figures have been reclassified/regrouped wherever necessary, to correspond with those of the current period classification.
- The full format of the Unaudited Financial Results are available on the websites of Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com and can be accessed on Company's website at www.schneider-infra.in.

By Order of the Board,
For Schneider Electric Infrastructure LimitedSanjay Sudhakaran
Managing Director and Chief Executive Officer
DIN : 00212610

It has come to our knowledge that some fraudulent person(s) are deceiving consumers by offering part-time jobs in the name of Rachika Trading Ltd. (the Company).

These unknown persons have created fake identities/ website(s)/ mobile numbers/ emails and are using the name of the Company and its Corporate Identification Number and email ID. The Fraudsters are using websites/ social media/ messaging platforms, etc. to invite the people to enrol for these online part-time job(s)/ task(s), where the user is expected to recharge their account with certain sum of money to get back certain random amount/discount on various retail/shopping platforms.

This is to notify to the public that Rachika Trading Ltd. is neither engaged nor associated with any such third party to provide online employment and/or any such online activities.

The general Public is hereby advised to be vigilant and exercise caution and immediately report any suspicious incident and/or incident of defrauding of money as a result of such fraudulent acts and practices to the authorities in their jurisdiction, i.e. the Police and Cyber Crime Cell. The Company has also made complaint to National Cybercrime Reporting Portal and would initiate appropriate legal action against these unknown person(s).

The Company, its directors and officers would not be responsible and liable for any loss or damage (direct or indirect) suffered by any one due to use of or dealing with such fake/fraudulent website(s) or by dealing with such fraudsters impersonating to be representing Rachika Trading Ltd.

Place : Mumbai
Date : 2nd August, 2022
Sd/-
Authorized person
Rachika Trading Limited

सीआईएन : L74899DL1995PLC068021 पंजीकृत कार्यालय : जीएफ-12ए, 94, मेघदूत बिल्डिंग, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-19
कॉर्पोरेट कार्यालय : वी-8, सेक्टर-132, नोएडा-201 304 (उत्तर प्रदेश) दूरभाष : 0120-3082000; फैक्स : 0120-3082095
वेब : http://www.infoedge.in/; ई-मेल : investors@naukri.com

27वीं वार्षिक आम बैठक, रिमोट ई-वोटिंग की जानकारी तथा ब्रुक क्लोजर की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी की 27वीं एजीएम आहूत करने की सूचना, जिसे विच वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट सहित कम्पनी के सदस्यों के पास भेजा जा चुका है, में निर्धारित प्रकाश्यों के लेन-देन के लिए कम्पनी की 27वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य आडियो विजुअल साधनों ('ओएवीएम') के माध्यम से शुरूवार, 26 अगस्त, 2022 को 05.30 बजे अप. भा.मा.स. पर आयोजित की जायेगी। बैठक का स्थान कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय जीएफ-12ए, 94, मेघदूत बिल्डिंग, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 होगा।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. 2/2022 दिनांक 05.05.2022 एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड ('सेबी') द्वारा जारी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांक 13.05.2022 (इसके बाद सामूहिक रूप से "परिपत्र" सन्दर्भित) के अनुसार कम्पनियों को किसी आम स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति दी है। परिपत्रों के अनुपालन में कम्पनी ने एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 केवल ई-मेल द्वारा कम्पनी के उन सदस्यों के पास भेज दी है जो शुरूवार, 29 जुलाई, 2022 (सूचना भेजने की कट-ऑफ तिथि) तक कम्पनी के शेयर धारण करते हैं।

कम्पनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 108 तथा यथासंशोधित कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 एवं यथासंशोधित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुरूप कम्पनी एजीएम की सूचना में निर्धारित समस्त प्रकार्य मॉड्यूल पर अधिनियम के प्राथम्य प्रावधानों एवं प्रासंगिक परिपत्रों के अनुसार समस्त पात्र सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा ('रिमोट ई-वोटिंग') एवं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग ('ई-वोटिंग') (सामूहिक रूप से 'इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग' सन्दर्भित) की सुविधा प्रदान कर रही है। जो सदस्य रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान नहीं करेंगे वे एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान कर सकेंगे। कम्पनी ने वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम संचालित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सुविधा एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपलब्ध कराने के लिए एजेंसी के रूप में नेशनल सिस्कोवैरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की सेवाएँ ली हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संचालित करने के लिए संवैधानिक रूप में श्री रुपेश अग्रवाल, प्रबंध भागीदार इनकी अनुउपस्थिति में श्री शशिशंकर तिवारी, भागीदार, मैसर्स चन्द्रशेखरन एंजोसिएट्स, कम्पनी सचिव को नियुक्त, किया गया है।

(क) केवल कट-ऑफ तिथि अर्थात शुरूवार, 19 अगस्त, 2022 तक भौतिक या अनभौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य ही सूचना में निर्धारित प्रकाश्यों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान करने के पात्र होंगे।

(ख) वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 सहित एजीएम की सूचना ई-मेल द्वारा भेजने का कार्य कम्पनी द्वारा 2 अगस्त, 2022 को पूरा कर लिया गया है।

(ग) मतदान की अवधि सोमवार, 22 अगस्त, 2022 को 09.00 बजे पूर्वा. भा.मा.स. प्रारम्भ होगी और बृहस्पतिवार, 25 अगस्त, 2022 को 05.00 बजे अप. भा.मा.स. समाप्त होगी। इसके पश्चात मतदान के लिए ई-वोटिंग मॉड्यूल एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जायेगा और कथित तिथि के पश्चात रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी।

(घ) कोई व्यक्ति जो कम्पनी के शेयर अर्जित करता है और एजीएम की सूचना भेजे जाने के पश्चात कम्पनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि अर्थात शुरूवार, 19 अगस्त, 2022 तक शेयर धारण करता वह evoting@nsdl.co.in अथवा at evoting@naukri.com पर निवेदन भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है तो तत्पश्चात ब्रुक आईडी और पासवर्ड का उपयोग मतदान के लिए किया जा सकता है।

(ङ) रिमोट ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करते हुए सदस्य द्वारा एक बार मतदान कर लेने के पश्चात उसे मतदान बदलने की अनुमति नहीं होगी। जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान कर लिया है वे भी एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं किन्तु वे दुबारा मतदान के पात्र नहीं होंगे।

(च) सदस्य ध्यान दें कि 27वीं एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.infoedge.in तथा स्टॉक एक्सचेंज अर्थात वीएसएस लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com तथा www.nseindia.com और एनएसडीएल की वेबसाइट <https://www.evoting.nsdl.com> पर भी उपलब्ध होंगी और निरीक्षण हेतु किसी भी कार्यदिवस पर सामान्य कार्य घंटों के दौरान कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में उपलब्ध होंगी।

(छ) सदस्य ध्यान दें कि कम्पनी एनएसडीएल की वेबसाइट पर एजीएम वेबकास्ट को लाइव स्ट्रीमिंग देखने की सुविधा उपलब्ध करायेगी। सदस्य इसे अपने रिमोट ई-वोटिंग विवरण का उपयोग करके <http://www.evoting.nsdl.com> पर एक्सेस कर सकते हैं। वेबकास्ट सुविधा शुरूवार, 26 अगस्त, 2022 को 05.30 बजे अप. से उपलब्ध होगी।

(ज) जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते अब तक पंजीकृत नहीं कराये हैं वे एजीएम की सूचना में प्रदत्त प्रक्रिया का अनुपालन करके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए अपने ई-मेल पते पंजीकृत करा लें।

(झ) कंपनी ने एजीएम में अनुमोदित होने पर, विच वर्ष 2021-22 के लिए अंतिम लाभांश के भुगतान के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के लिए शुरूवार, 19 अगस्त, 2022 को 'रिकॉर्ड तिथि' के रूप में निर्धारित किया है। जिन सदस्यों ने अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट नहीं किया है, उन्हें लाभांश वारंट/डिमांड ड्राफ्ट/चेक उनके पंजीकृत पते पर भेज दिया जाएगा। लाभांश प्राप्त करने में देरी से बचने के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने केवाईसी को अपने डिपॉजिटरी (जहाँ शेयर डीमैटरीरियलाइज्ड मोड में रखे गये हैं) और कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट-मैसर्स लिंक इन्टाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड ('लिंकइन्टाइम') (जहाँ शेयरों की भौतिक प्रारूप में रखा गया है वह फॉर्म आईएसआर-1 में निर्धारित विवरण और लिंकइन्टाइम के साथ अन्य प्रासंगिक रूपों को अपडेट करके) अपडेट करें। फॉर्म <http://www.infoedge.in/investor-services-cs.asp> पर भी उपलब्ध है।

(ञ) सदस्य ध्यान दें कि वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित आयकर अधिनियम, 1961, ('आईटी अधिनियम') के अनुसार कि 1 अप्रैल, 2020 के बाद किसी कंपनी द्वारा भुगतान या वितरित लाभांश सदस्यों के शायों में कर योग्य होगा। इसलिए कंपनी को अंतिम लाभांश का भुगतान करते समय स्रोत पर कर ('टीडीएस') कटौती करनी होगी। उपयुक्त टीडीएस दर निर्धारित करने में हमें सहाय्य बनाने के लिए, सदस्यों से आईटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रासंगिक दस्तावेज जमा करने का अनुरोध किया जाता है। सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस विषय पर प्रासंगिक घोषणाओं, निर्देशों और सूचनाओं के प्रारूप के लिए <http://www.infoedge.in/investor-services-tax.asp> देखें। दस्तावेजों को 5 सितंबर, 2022 को या उससे पहले <https://linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html> पर अपलोड करना आवश्यक है। 5 सितंबर, 2022 के बाद कर-रोकथाम के मामलों के संबंध में सदस्यों से कोई संचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। शेयरधारक इस विषय पर किसी भी सप्टीकरण के लिए dividend.its@infoedge.com को लिख सकते हैं।

(ट) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से संबंधित किसी भी शिकायत/पृष्ठछाछ के मामले में, सदस्य श्री सोनी सिंह से ई-मेल evoting@nsdl.co.in, संपर्क नं. 1800-1020-990 या 1800-22-44-30 पर संपर्क कर सकते हैं। सदस्य इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए सुशी जया भाटिया, कंपनी सचिव से कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय वी-8, सेक्टर-132, नोएडा-201304 (उ.प्र.), दूरभाष: +91-120-3082005, ई-मेल: evoting@naukri.com से भी संपर्क कर सकते हैं।

(ठ) एतद्वारा यह सूचना भी दी जाती है कि अधिनियम की धारा 91 एवं सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार एजीएम तथा विच वर्ष 2021-22 के लिए अंतिम लाभांश के भुगतान के उद्देश्य से कम्पनी का रजिस्ट्रार तथा शेयर अन्वयण पुस्तिका 20 अगस्त, 2022 से 26 अगस्त, 2022 (दोनों तिथियाँ शामिल) तक बन्द रहेगी।

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार
कृते इन्फो एज (इण्डिया) लिमिटेड
ज्या भाटिया
तिथि : 2 अगस्त, 2022
स्थान : नोएडा
कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

दक्षिण रेलवे

निर्माण संगठन, अनारकुलम जं.

1. निविदा सूचना सं.: 12-CE-CN-ERS-2022-OT तिथि 25.7.2022

कार्य का नाम: रोड ओवर ब्रिज का निर्माण
निविदा मूल्य: रु. 1513.64 लाख,
बोली प्रतिभूति: रु. 906800/-,
पूर्णात अवधि: 15 माह

2. निविदा सूचना सं.: 13-CE-CN-ERS-2022-OT तिथि 25.7.2022

कार्य का नाम: गैब्रिकन बाल का निर्माण
निविदा मूल्य: रु. 701.81 लाख,
बोली प्रतिभूति: रु. 500900/-,
पूर्णात अवधि: 8 माह

3. निविदा सूचना सं.: 14-CE-CN-ERS-2022-OT तिथि 25.7.2022

कार्य का नाम: कोल्लम में एम्प्राईम्यू ग्रेड
निविदा मूल्य: रु. 1935.95 लाख,
बोली प्रतिभूति: रु. 1118000/-,
पूर्णात अवधि: 18 माह

निविदा बंद होने की तिथि एवं समय:
19.8.2022

सम्पूर्ण विवरण तथा निविदा दस्तावेज
<https://www.ireps.gov.in> पर उपलब्ध है।

सुख्य अभिवादन, निर्माण,
अनारकुलम जं.

Follow us on : twitter.com/GMSRailway

ओएनजीसी Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

इंटरनेट ऑफिशर एसेट, काकांनाडा (ए.ए.ई.)
अभिव्यक्ति (ईओआई)

केजी-डीडब्ल्यूएन 98/2 प्रोजेक्ट के लिये सब सी अभिलिखित प्रचालनों के लिये पॉवर प्वाइन्ट डेज़ाइन (पीपीडी)की आपूर्ति के लिये

ओएनजीसी, इंटरनेट ऑफिशर एसेट, काकांनाडा द्वारा अनुभव मानदंड, कार्य की सीमा, अनुबंध की विशिष्ट शर्तों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केजी-डीडब्ल्यूएन 98/2 प्रोजेक्ट के सब सी अभिलिखित प्रचालनों के लिये 1000M13 पॉवर प्वाइन्ट डेज़ाइन (पीपीडी) की आपूर्ति के लिये तेल एवं प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में अनुभवी प्रख्यात एवं इच्छुक वेडरों से अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित है। ईओआई बैठक : 10.8.2022 को 11.00 बजे आईएसटी, स्थान : अनलाइन अभिव्यक्ति प्रत्युत्तर प्राप्ति की अंतिम तिथि : 9.8.2022, 17.00 बजे आईएसटी/टिपण्णी : अग्रिम विवरणों के लिये कृपया हमारी <https://tenders.ongc.co.in> देखें। वॉलेंट शमता रखने वाले संभावित वेडरों से ईओआई का प्रत्युत्तर दे सकते हैं तथा अपनी टिपण्णी तथा समर्थक दस्तावेज 9.8.2022 के 17.00 बजे आईएसटी तक eoachem@ongc.co.in पर ईमेल द्वारा भेज सकते हैं। किसी भी प्रकार की पृष्ठछाछ के लिये जीएम (केम), ई-मेल pundla_sreenivasulu@ongc.co.in से सम्पर्क किया जा सकता है।

हर एक काम देश के नाम

पंजाब नैशनल बैंक Punjab National Bank

सामान्य सेवाएं प्रशासन प्रभाग

प्रधान कार्यालय, फ्लॉर सं 4, सेक्टर-10, इंदरका, नई दिल्ली - 110075
hogad@pnb.co.in; hoinsurance@pnb.co.in

बैंक की अग्रिम एवं विशेष जोखिमों, सेंध और विद्युतता बीमा पॉलिसी के नवीनीकरण (46 स्थानों पर स्वर्ण और बलिचन) के लिए बोलियाँ प्रेषित करने हेतु सूचना

पंजाब नैशनल बैंक, भारत की पंजीकृत सामान्य बीमा कंपनी से बैंक की अग्रिम एवं विशेष जोखिमों, सेंध और विद्युतता बीमा पॉलिसी के नवीनीकरण पर सोलवेट बोलियाँ अनुरोधित करता है। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट <https://www.pnbindia.in/Tender.aspx> पर जाएं।

इच्छुक सामान्य बीमा कंपनियों अपनी बोलियाँ 16 अगस्त 2022 को प्रातः 11.00 बजे तक या इससे पहले मुख्य प्रबंधक, पंजाब नैशनल बैंक, सामान्य सेवाएं प्रशासन प्रभाग, प्रधान कार्यालय, फ्लॉर सं 4, सेक्टर-10, इंदरका, नई दिल्ली - 110075 को प्रेषित करें।

उपरोक्त के संबंध में कोई भी सुझाव / विचार को लिख / स्पष्टीकरण केवल हमारी वेब साइट <https://www.pnbindia.in> पर जारी किया जाएगा जो कि इच्छुक बोलियाँदाताओं द्वारा निर्धारित रूप से देखी जा सकती है।

मुख्य प्रबंधक
(011-28044751)

DHANUKA AGRITECH LIMITED

Corporate Identification Number: L24219DL1985PLC020126

Registered Off.: 82, Abhinash Mansion, 1st Floor, Joshi Road, Karol Bagh, New Delhi - 110005. | Tel. No.: 011-23534551 / 57

Corporate Off.: Global Gateway Tower, M G Road, Near Guru Dronacharya Metro Station, Gurugram - 122 002, Haryana. | Tel. No.: 0124 4345000 | Email: investors@dhanuka.com | Website: www.dhanuka.com

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2022

Sr. No.	Particulars	STANDALONE			CONSOLIDATED		
		Quarter Ended	Year Ended	Quarter Ended	Quarter Ended	Year Ended	Quarter Ended
		30.06.2022	31.03.2022	30.06.2021	30.06.2022	31.03.2022	30.06.2021
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Audited	Unaudited
1	Total Income from operations	40,957.82	1,51,136.22	37,153.54	40,957.82	1,51,136.22	37,153.54
2	Net Profit / (Loss) for the period before tax (before Exceptional and / or Extraordinary items)	6,374.80	27,748.27	6,416.22	6,374.58	27,759.53	6,416.21
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	6,374.80	27,748.27	6,416.22	6,374.58	27,759.53	6,416.21
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	4,911.23	20,878.22	4,860.08	4,911.01	20,889.48	4,860.07
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period after tax and other Comprehensive Income (OCI) after tax)	4,926.23	21,069.17	4,891.33	4,926.01	21,080.43	4,891.32
6	Paid-up Equity Share Capital (Face value of ₹ 2/- per Equity Share)	931.57	931.57	931.57	931.57	931.57	931.57
7	Other Equity (excluding Revaluation Reserves as shown in the Balance sheet of previous year)	95,110.42			95,110.42		
8	Earning Per share (for continuing and discontinued operations) (of ₹ 2/- each) (not annualised) • Basic EPS (in ₹) • Diluted EPS (in ₹)	10.54 44.82	10.54 44.82	10.43 10.43	10.54 44.82	10.43 44.82	10.43 44.82

Notes:

1 The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2022 filed with the Stock Exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly ended Financial Results are available on the website of BSE & NSE where the Company's shares are listed i.e. at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the Company's website, www.dhanuka.com.

2 The above Unaudited Financial Results were reviewed by the Audit Committee and thereafter approved and taken on record by the Board of Directors in their Meeting held on 2nd August, 2022. The Statutory Auditors of the Company have conducted a "Limited Review" of the above financial results for the quarter ended 30th June, 2022.

For and on behalf of the Board
(M.K. Dhanuka)
Managing Director
DIN : 00628039

Place : Gurugram (Haryana)
Date : 2nd August, 2022

zomato

Zomato Limited (formerly known as Zomato Private Limited)

CIN : L93030DL2010PLC198141

Registered office- Ground Floor, 12A, 94 Meghdoot, Nehru Place, New Delhi- 110019, Delhi, India
Telephone- 011-40592373, Email- companysecretary@zomato.com, Website- www.zomato.com

Extract of consolidated financial results for the quarter ended June 30, 2022

S. No.	Particulars	Quarter ended			Year ended	
		June 30, 2022	March 31, 2022	June 30, 2021	March 31, 2022	June 30, 2021
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Audited
		June 30, 2022	March 31, 2022	June 30, 2021	March 31, 2022	June 30, 2021
1	Total income	15,820	13,500	9,166	46,873	46,873
2	Net loss for the period (before tax and exceptional items)	(1,860)	(3,515)	(3,431)	(16,179)	(16,179)
3	Net loss for the period before tax (after exceptional items)	(1,860)	(3,594)	(3,590)	(12,205)	(12,205)
4	Net loss for the period after tax (after exceptional items)	(1,860)	(3,597)	(3,607)	(12,225)	(12,225)
5	Total comprehensive loss for the period	(2,625)	(3,474)	(3,632)	(12,203)	(12,203)
6	Paid up share capital	7,652	7,643	6,381	7,643	7,643
7	Other equity as on March 31, 2022				157,412	157,412
8	Loss per share (₹) (face value of ₹1 each) (a) Basic (b) Diluted	(0.24) (0.24)	(0.47) (0.47)	(0.56) (0.56)	(1.67) (1.67)	(1.67) (1.67)

¹The figures of the last quarter of the previous year are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and published year to date figures upto the third quarter of the relevant financial year.
²The Company does not have any revaluation reserve.
³EPS is not annualised for the quarter ended June 30, 2022, quarter ended March 31, 2022 and quarter ended June 30, 2021.

Notes:

(a) Exceptional items include:

Particulars	Quarter ended			
	June 30, 2022	March 31, 2022	June 30, 2021	March 31, 2022
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
	June 30, 2022	March 31, 2022	June 30, 2021	March 31, 2022
Gain on sale /disposal of investment including foreign currency translation reserve on foreign subsidiaries sold / disposed off during the period	-	15	-	3,227
Loss on account of movements in foreign exchange rate in one of the Company's subsidiary operating in a hyperinflationary economy	-	(94)	(159)	(253)
Total	-	(79)	(159)	2,974

(b) Standalone information:

Particulars	Quarter ended			
	June 30, 2022	March 31, 2022	June 30, 2021	March 31, 2022
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
	June 30, 2022	March 31, 2022	June 30, 2021	March 31, 2022
Total income	13,043	11,618	8,283	41,085
Net loss for the period (before tax and exceptional items)	(1,381)	(2,929)	(2,904)	(12,688)
Net loss for the period before tax (after exceptional items)	(1,381)	(2,935)	(2,908)	(10,978)
Net loss for the period after tax (after exceptional items)	(1,381)	(2,937)	(2,908)	(10,980)

¹The figures of the last quarter of the previous year are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and published year to date figures upto the third quarter of the relevant financial year.

(c) The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results are available on the websites of National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com), BSE Limited (www.bseindia.com) and the Company (www.zomato.com).

For and on behalf of the board of directors of Zomato Limited (formerly known as Zomato Private Limited)

Sd/-
Deepeer Goyal
Managing Director and Chief Executive Officer
(DIN-02613583)

Date: August 01, 2022
Place: Gurugram

शुद्धिपत्र

05.05.2022 को जनसत्ता (हिन्दी, दिल्ली संस्करण) में प्रकाशित छात्रों के प्रवेश प्रमाणपत्रों (प्लेस होल्डिंग एडमिशन प्रमाणपत्र) (प्लेस होल्डिंग एडमिशन प्रमाणपत्र) के फॉर्म नं. जाईएनसी-26 फॉर्म की पंजीकृत कार्यालय के स्थानान्तरित के विधान में असाधारण सामान्य बैठक की तिथि 04.03.2022 की बजाय 04.04.2022 का उल्लेख हुआ था। अतः निवेदन है कि असाधारण सामान्य बैठक की तिथि 04.03.2022 ही पढ़ा जाए। त्रुटि के लिए धन्यवाद किया गया है।

USS GLOBAL LIMITED
(Formerly known as SURINDHI INVESTMENT LIMITED)
CIN: L74900DL1993PLC056491
Regd Office: Office No. 400, ITL Twin Towers, B-9, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, New Delhi - 110034
Phone: 011-45824477
Website: www.ussglobaltd.com
E-mail: surmihidinvestmentltd@gmail.com
Notice of 4/2022 Board Meeting
Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015, as amended, Notice is hereby given that the 4/2022 Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on 10th August, 2022 at 2:00 P.M. at the Registered Office of the Company, inter alia, to consider